

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने मेयर की COVID-19 यूथ स्पॉर्ट टास्क फोर्स की घोषणा की

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (20 मार्च, 2020) – आज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने स्थानीय अर्थव्यवस्था और कमज़ोर समुदायों को सहयोग देने के लिए अपनी चौथी विशेष टास्क फोर्स: मेयर की COVID-19 (सी.ओ.वी.आई.डी.-19) यूथ स्पॉर्ट टास्क फोर्स (Youth Support Task Force) की घोषणा की।

इस टास्क फोर्स के को-चेयर, वार्ड्स 9 और 10 के सिटी काउंसलर हरकीरत सिंह (Harkirat Singh) और वार्ड्स 7 और 8 की सिटी काउंसलर शारमैन विलियम्स (Charmaine Williams) होंगे। विशेष रूप से तैयार की गई यह टीम, उन जानकारियों और संसाधनों तक पहुंच में तालमेल करने में मदद करेगी, जिनकी ब्रैम्पटन के युवाओं को इस समय के दौरान सबसे अधिक जरूरत है।

यह ग्रुप, COVID-19 के बढ़ने से पहले ही प्रभावी प्रतिक्रिया का प्रबंध करने के लिए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के एमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर (Emergency Operations Centre) और सिटी के स्टाफ के साथ मिलकर काम करेगा। यह उन संसाधनों और सहयोग में तालमेल करने में मदद करेगा, जिनकी हमारे युवाओं को इस मुश्किल समय के दौरान जरूरत है।

यह टास्क फोर्स निम्नलिखित काम करेगी:

1. युवाओं को शामिल करने के अवसरों में सहयोग करेगी क्योंकि सिटी की लाइब्रेरियां और रेक्रिएशन सेंटर बंद हैं
2. बच्चों की देखभाल में सहायता के लिए और कमज़ोर युवाओं के लिए रीजन ऑफ पील (Region of Peel) के साथ मिलकर काम करेगी
3. ब्रैम्पटन में युवाओं के लिए, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी संगठनों द्वारा दी जाने वाली सहायता और जानकारी में मदद के लिए तालमेल करेगी
4. हमारे युवाओं को सहयोग करने के लिए, स्विच्छकों और स्टेकहोल्डर्स के लिए अतिरिक्त भागीदारी के अवसर पैदा करेगी

हालांकि निवासियों और कर्मचारियों को सुरक्षित रखने में मदद के लिए सिटी हॉल बंद रहेगा, लेकिन अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को और हमारे शहर के सभी युवाओं को सहयोग देने के लिए हम लगातार दिन-रात काम कर रहे हैं।

अगली पीढ़ी को सहयोग करने का महत्वपूर्ण तरीका है कि हमारी काउंसिल भविष्य के लिए सिटी को तैयार कर सके।

आज की घोषणा, इस सप्ताह मेयर की COVID-19 इकोनॉमिक स्पॉर्ट (Economic Support) और सोशल स्पॉर्ट (Social Support) और सीनियर्स स्पॉर्ट टास्क फोर्सिज (Seniors Support Task Forces) की शुरुआत के बाद की गई है। इस बारे में [यहां \(here\)](#) और पढ़ें।

हमारे साथ जुड़ें

जो लोग COVID-19 से राहत के हमारे प्रयासों के समर्थन में अपनी भूमिका निभाना और मदद करना चाहते हैं, वे ईमेल द्वारा इन समर्पित टीमों के साथ साथ जुड़ सकते हैं:

- मेयर की COVID-19 इकोनॉमिक स्पोर्ट टास्क फोर्स - Covid19business@brampton.ca
- मेयर की COVID-19 सोशल स्पोर्ट टास्क फोर्स - Covid19support@brampton.ca
- मेयर की COVID-19 सीनियर्स स्पोर्ट टास्क फोर्स - Covid19seniors@brampton.ca
- मेयर की COVID-19 यूथ स्पोर्ट टास्क फोर्स - Covid19youth@brampton.ca

अधिक जानकारी

सिटी की सेवाओं के बारे में बिल्कुल ताज़ा जानकारी और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs), और फेसिलिटी और प्रोग्रामिंग बंद होने के बारे में जानकारी के लिए, कृपया वेबसाइट: www.brampton.ca/covid19 पर जाएं।

पील पब्लिक हेल्थ द्वारा दी जाने वाली ताज़ा जानकारी के लिए: www.peelregion.ca/coronavirus पर जाएं।

हवाला

“हालांकि ब्रैम्पटन के निवासियों और कर्मचारियों को सुरक्षित रखने में मदद के लिए सिटी हॉल बंद रहेगा, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए काउंसिल लगातार काम कर रही है कि हम स्थानीय अर्थव्यवस्था और हमारे कमज़ोर समुदायों को सहयोग देने के लिए साथ मिलकर काम रहे हैं। यह नई टास्क फोर्स सुनिश्चित करेगी कि हम यह सुनिश्चित करते हुए अर्थपूर्ण तरीकों से ब्रैम्पटन के युवाओं को शामिल कर रहे हैं कि उनके पास सीखने, क्रियाशील रहने और उनके लिए आवश्यक सहयोग में शामिल होने के लिए स्थान हैं, चाहे वे मनोरंजन संबंधी विकल्प बॉ, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहयोग अथवा शेल्टर हो। अपने स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर, हम ब्रैम्पटन के युवाओं पर COVID-19 के प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca